



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

28 सितंबर 2023

जून 2023 के अंत में भारत का बाह्य ऋण

जून 2023 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्टॉक तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े [विवरण I \(आईएमएफ फॉर्मेट¹\)](#) और [II \(पुराना फॉर्मेट\)](#) में दिए गए हैं। जून 2023 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं।

मुख्य बातें

- जून 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 629.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है ([तालिका 1](#))।
- जून 2023 के अंत में, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात घटकर 18.6 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 18.8 प्रतिशत था।
- येन और एसडीआर² जैसी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य वृद्धि के कारण मूल्यन प्रभाव 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मूल्यन प्रभाव को छोड़कर, बाह्य ऋण मार्च 2023 की तुलना में जून 2023 के अंत में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा होता।
- जून 2023 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले) 505.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है।
- कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले) का हिस्सा मार्च 2023 के अंत में 20.6 प्रतिशत से घटकर जून 2023 के अंत में 19.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, विदेशी आरक्षित निधि की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात (मूल परिपक्वता) जून 2023 के अंत में घटकर 20.8 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 22.2 प्रतिशत) हो गया।

¹ आईएमएफ की 2013 के बाह्य ऋण सांख्यिकी (ईडीएस) गाइड में निर्धारित अवधारणाएं राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 और आईएमएफ के भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल (बीपीएम 6) के छठे संस्करण, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, के अनुरूप हैं।

² एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार।

- vi) अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक ऋण (अर्थात्, ऋण दायित्व जिसमें अगले बारह महीनों में आने वाली मूल परिपक्वता वाली दीर्घकालिक ऋण और मूल परिपक्वता पर अल्पकालिक ऋण शामिल हैं) जून 2023 के अंत में कुल विदेशी ऋण का 42.8 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 44.0 प्रतिशत) था और विदेशी आरक्षित निधि का 45.3 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 47.4 प्रतिशत) था। ([तालिका 2](#))।
- vii) जून 2023 के अंत में 54.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद भारतीय रुपया (30.4 प्रतिशत), एसडीआर (5.9 प्रतिशत), येन (5.7 प्रतिशत), और यूरो (3.0 प्रतिशत) मूल्यवर्ग के ऋण रहे।
- viii) जून 2023 के अंत में सामान्य सरकार का बकाया ऋण कम हो गया, जबकि गैर-सरकारी ऋण बढ़ गया ([तालिका 3](#))।
- ix) कुल बाह्य ऋण में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया ऋण का हिस्सा सबसे अधिक 39.8 प्रतिशत था, इसके बाद जमा स्वीकार वाले निगम (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) (26.6 प्रतिशत), सामान्य सरकार (21.1 प्रतिशत) और अन्य वित्तीय निगम (7.6 प्रतिशत) का हिस्सा था।
- x) 32.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ ऋण, बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा, इसके बाद मुद्रा और जमाराशि (22.9 प्रतिशत), व्यापार ऋण और अग्रिम (19.0 प्रतिशत) और ऋण प्रतिभूतियां (16.8 प्रतिशत) की हिस्सेदारी रहीं ([तालिका 4](#))।
- xi) जून 2023 के अंत में ऋण सेवा (अर्थात्, मूल भुगतान और ब्याज भुगतान) बढ़कर वर्तमान प्राप्ति का 6.8 प्रतिशत हो गया, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 5.3 प्रतिशत थी, जो उच्च ऋण चुकौती को दर्शाती है ([तालिका 5](#))।

Table 1: External Debt – Outstanding and Variation							
(US\$ billion, unless indicated otherwise)							
Sector	Outstanding as at end of			Absolute Variation		Percentage Variation	
	June 2022 PR	March 2023 PR	June 2023 P	June 2023 over June 2022	June 2023 over March 2023	June 2023 over June 2022	June 2023 over March 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I. General Government	127.7	133.3	132.8	5.1	-0.6	4.0	-0.4
II. Central Bank	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	62.5	47.5
III. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	157.0	163.4	167.2	10.2	3.8	6.5	2.3
IV. Other Sectors	300.3	298.0	298.1	-2.3	0.0	-0.8	0.0
IV.1. Other financial corporations	49.9	55.0	47.7	-2.2	-7.2	-4.4	-13.2
IV.2. Non-financial corporations	250.4	243.1	250.3	-0.1	7.2	0.0	3.0
IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	-4.0
V. Direct Investment: Intercompany Lending	27.7	29.5	30.9	3.2	1.5	11.6	4.9
Total Debt (I to V)	612.8	624.3	629.1	16.3	4.7	2.7	0.8
<i>Memo Items:</i>							
A. Long-term Debt (original maturity)@	486.8	496.0	505.5	18.7	9.6	3.8	1.9
B. Short-term Debt (original maturity)#	126.1	128.4	123.6	-2.5	-4.8	-2.0	-3.7
PR: Partially Revised. P: Provisional.							
@: Debt with original maturity of above one year.							
#: Debt with original maturity of up to one year.							
Note: Figures may not add up to total due to rounding off.							

Table 2: Residual Maturity of Outstanding External Debt as at end-June 2023					
(US\$ billion, unless indicated otherwise)					
Sector	Short-term up to one year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	Total (2 to 5)
1	2	3	4	5	6
I. General Government	8.1	9.8	9.9	105.0	132.8
I.A. Short-term Debt	0.4	–	–	–	0.4
I.B. Long-term Debt	7.7	9.8	9.9	105.0	132.3
II. Central Bank	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
II.A. Short-term Debt	0.2	–	–	–	0.2
II.B. Long-term Debt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	98.2	28.2	10.7	30.0	167.2
III.A. Short-term Debt	2.5	–	–	–	2.5
III.B. Long-term Debt	95.7	28.2	10.7	30.0	164.6
IV. Other Sectors	156.6	29.8	19.9	91.8	298.1
IV.A. Short-term Debt	120.4	–	–	–	120.4
IV.B. Long-term Debt	36.2	29.8	19.9	91.8	177.6
IV.1. Other financial corporations	10.6	5.3	6.9	24.9	47.7
IV.1.A. Short-term Debt	1.5	–	–	–	1.5
IV.1.B. Long-term Debt	9.1	5.3	6.9	24.9	46.2
IV.2. Non-financial corporations	145.9	24.5	13.0	66.9	250.3
IV.2.A. Short-term Debt	118.9	–	–	–	118.9
IV.2.B. Long-term Debt	27.0	24.5	13.0	66.9	131.4
IV.3. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV.3.A. Short-term Debt	0.0	–	–	–	0.0
IV.3.B. Long-term Debt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V. Direct Investment: Intercompany Lending	6.4	4.7	3.9	15.9	30.9
A. Total Short-term Debt	123.6	–	–	–	123.6
B. Total Long-term Debt	146.0	72.5	44.3	242.7	505.5
C. Total Debt (A+B)	269.5	72.5	44.3	242.7	629.1
<i>Memo Items:</i>					
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Total External Debt					42.8
Short-term Debt (residual maturity) as per cent of Foreign Exchange Reserves					45.3
Note: Figures may not add up to total due to rounding off.					

Table 3: Government and Non-government External Debt

(US\$ billion, unless indicated otherwise)

Component	End-March			End-June
	2021	2022 PR	2023 PR	2023 P
1	2	3	4	5
A. Government Debt (I+II)	111.6	130.8	133.3	132.8
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(4.1)</i>	<i>(4.2)</i>	<i>(4.0)</i>	<i>(3.9)</i>
I. External Debt on Government Account under External Assistance	84.5	86.7	91.1	90.2
II. Other Government External Debt@	27.1	44.1	42.3	42.6
B. Non-government Debt	461.8	488.2	491.0	496.3
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(17.0)</i>	<i>(15.8)</i>	<i>(14.8)</i>	<i>(14.7)</i>
B.1. Central Bank	0.2	0.1	0.1	0.2
B.2. Deposit-taking Corporations, except the Central Bank	160.8	160.4	163.4	167.2
B.3. Other Financial Corporations	55.2	51.0	55.0	47.7
B.4. Non-financial Corporations	220.4	249.0	243.1	250.3
B.5. Households and nonprofit institutions serving households (NPISHs)	0.0	0.0	0.0	0.0
B.6. Direct Investment: Intercompany Lending	25.2	27.7	29.5	30.9
C. Total Debt (A+B)	573.4	619.0	624.3	629.1
<i>(As percentage of GDP)</i>	<i>(21.1)</i>	<i>(20.0)</i>	<i>(18.8)</i>	<i>(18.6)</i>

PR: Partially Revised. P: Provisional.

@: Other government external debt includes defence debt, investment in treasury bills/government securities by foreign portfolio investors, foreign central banks and international institutions, and SDR allocations by the IMF.

Note: Figures may not add up to total due to rounding off.

Table 4: Outstanding External Debt by Instruments

(US\$ billion)

Instrument	End-March			End-June
	2021	2022 PR	2023 PR	2023 P
1	2	3	4	5
1. Special Drawing Rights (allocations)	5.6	22.9	22.3	22.0
2. Currency and Deposits	143.8	141.0	141.1	144.1
3. Debt Securities	106.9	112.6	104.6	105.7
4. Loans	191.9	197.0	202.6	207.1
5. Trade Credit and Advances	100.0	117.8	124.3	119.3
6. Other Debt Liabilities	0.0	0.0	0.0	0.0
7. Direct Investment: Intercompany Lending	25.2	27.7	29.5	30.9
Total Debt	573.4	619.0	624.3	629.1

PR: Partially Revised. P: Provisional.

Note: Figures may not add up to total due to rounding off.

Table 5: India's Key External Debt Indicators

(Per cent, unless indicated otherwise)

End-March	External Debt (US\$ billion)	Ratio of External Debt to GDP	Debt Service Ratio	Ratio of Foreign Exchange Reserves to Total Debt	Ratio of Concessional Debt to Total Debt	Ratio of Short-term Debt (original maturity) to Foreign Exchange Reserves	Ratio of Short-term Debt (original maturity) to Total Debt
1	2	3	4	5	6	7	8
1991	83.8	28.3	35.3	7.0	45.9	146.5	10.2
1996	93.7	26.6	26.2	23.1	44.7	23.2	5.4
2001	101.3	22.1	16.6	41.7	35.4	8.6	3.6
2006	139.1	17.1	10.1#	109.0	28.4	12.9	14.0
2007	172.4	17.7	4.7	115.6	23.0	14.1	16.3
2008	224.4	18.3	4.8	138.0	19.7	14.8	20.4
2009	224.5	20.7	4.4	112.2	18.7	17.2	19.3
2010	260.9	18.5	5.8	106.9	16.8	18.8	20.1
2011	317.9	18.6	4.4	95.9	14.9	21.3	20.4
2012	360.8	21.1	6.0	81.6	13.3	26.6	21.7
2013	409.4	22.4	5.9	71.3	11.1	33.1	23.6
2014	446.2	23.9	5.9	68.2	10.4	30.1	20.5
2015	474.7	23.8	7.6	72.0	8.8	25.0	18.0
2016	484.8	23.4	8.8	74.3	9.0	23.2	17.2
2017	471.0	19.8	8.3	78.5	9.4	23.8	18.7
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.3	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021	573.4	21.1	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022 PR	619.0	20.0	5.2	98.1	8.3	20.0	19.7
2023 PR	624.3	18.8	5.3	92.6	8.2	22.2	20.6
End-June 2023 P	629.1	18.6	6.8	94.6	7.8	20.8	19.6

PR: Partially Revised. P: Provisional.

works out to 6.3 per cent with the exclusion of India Millennium Deposits (IMDs) repayments of US\$ 7.1 billion and pre-payment of external debt of US\$ 23.5 million.